

**03<sup>rd</sup> May, 2025**  
**GIL/2025-26/014**

To,

The BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400 001 Fax No.: 022-22721919  Scrip Code- 533282	The Listing Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex Bandra(east) Mumbai- 400 051 Fax No.: 022-2659 8120 Company Code- GRAVITA
--	---

Dear Sir / Madam,

**Subject: Submission of copy of Newspaper Advertisement of Financial Results**

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. We hereby enclosed copies of Newspaper Advertisement published regarding extract of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2025 in following newspaper:

1. Financial Express (English Edition)
2. Business Standard (English Edition)
3. Nafa Nuksan (Hindi Edition)
4. Business Remedies (Hindi edition)
5. Economic Times (English Edition)

This is for your information and record.

Yours Faithfully  
For **Gravita India Limited**

**Nitin Gupta**  
**(Company Secretary)**  
**FCS-9984**

**Encl: As above**

**Regd. Office:**

'SAURABH', Chittora Road, Diggi-Malpura Road  
Tehsil: Phagi, JAIPUR- 303 904, Raj. (INDIA)  
Phone: +91-141-2623266, 2622697 FAX : +91-141-2621491  
Email: [companysecretary@gravitaindia.com](mailto:companysecretary@gravitaindia.com)



# Reliance Power arm signs 25-year power offtake pact with SECI

● To set up Asia's largest single-site solar, BESS project at ₹10,000 crore

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, May 2

**RELiance POWER ON** Friday said its subsidiary Reliance NU Suntech has signed a 25-year power purchase agreement (PPA) with the Solar Energy Corporation of India (SECI). As per the agreement, Reliance NU Suntech will supply 930 MW of solar power integrated with 465 MW/1,860 MWh battery energy storage system (BESS), at a competitive fixed tariff of ₹3.53 per kWh. Reliance NU Suntech is set to develop and commission Asia's largest single-location integrated solar and BESS project within the next 24 months. The project entails a capital investment of up to ₹10,000 crore, representing a significant strategic commitment to operational scalability and long-term value creation. To achieve the contracted

## GREEN FUTURE

■ Reliance NU Suntech will supply 930 MW of solar power along with 465 MW/1,860 MWh BESS to SECI

■ In December 2024, Reliance NU Suntech secured the deal through bidding

■ Reliance NU Suntech aims to commission its integrated solar and BESS project within 24 months



capacity of 930 MW, the project will deploy more than 1,700 MWp of installed solar generation capacity. This strategic agreement represents one of the most significant long-term power offtake arrangements in India to date, marking a major milestone in the nation's transition to clean energy, the company said in a statement.

In December 2024, Reliance NU Suntech secured the largest award in SECI's Tranche XVII auction, winning an allocation of 930 MW of solar power capacity along with a 465 MW/1,860 MWh BESS. A 465 MW/1,860 MWh BESS means power back up (supply)

of 465 MW for four hours.

The allocation was awarded through a tariff-based competitive bidding process, which saw participation from five leading energy companies competing for a total of 2,000 MW of inter-state transmission system-connected solar projects and 1,000 MW/4,000 MWh of BESS capacity.

This highlights Reliance NU Suntech's strategic commitment to executing large-scale, integrated clean energy projects, the statement added. Reliance Power has successfully submitted a performance bank guarantee amounting to ₹378 crore to SECI.

# Adani Power eyes ₹13,000-cr capex in FY26

RAGHAVENDRA KAMATH  
Mumbai, May 2

**ADANI POWER IS** looking to increase its capital expenditure by over 60% to ₹13,000 crore in the current financial year, as it aims to ramp up its capacity from 17.5 GW to 30.67 GW by 2029-30. In FY25, the company invested ₹8,000 crore.

The Adani Group firm plans to meet its funding requirements through internal accruals on the back of healthy Ebitda, its chief executive SB Khyalia said in an investor call. Group companies Adani Energy Solutions and Adani Green Energy are looking to invest ₹18,000 crore and ₹31,000 crore, respectively, in FY26. Adani Power posted a net profit of ₹2,649 crore in the fourth quarter of FY25 — down 3% year-on-year. It revenues rose 6.5% year-on-year to ₹14,237 crore from ₹13,364 crore.

"We are developing six sets of 2X800 MW ultra supercritical units across our sites in

## RAMPING UP CAPACITY

■ Adani Power aims to ramp up capacity to **30.67 GW** by 2029-30

■ It is developing six sets of **2X800 MW** ultra supercritical units

■ The company expects merchant power demand to be strong in FY26

■ The firm's CEO says coal supply is not a challenge



■ Adani Power posted a net profit of **₹2,649 cr** in Q4 FY25

■ Group companies Adani Energy Solutions and Adani Green Energy look to invest **₹18,000 cr and ₹31,000 cr, respectively, in FY26**

Raipur, Raigarh, Kawai, Mahan, and Mirzapur, and the BTG (boiler, turbine, generator) order has already been placed for this," company CFO Dilip Jha said. He said Adani Power is expected to close the acquisition of the 600 MW Vidharbha Industries Power in Butibori in Maharashtra soon as the NCLT resolution process is on its last legs.

The 2,920 MW expansion of its project in Korba, which was earlier known as Lanco Amarkantak, is likely to be

completed by the end of this financial year or early next financial year.

Khyalia said the demand for thermal power remains strong and the government has recently upped its projection for new thermal capacity to 100GW from 80GW.

The company expects merchant power demand to be strong in FY26, with higher demand and lower thermal capacity addition. Close to 90% of its capacity is tied up under long-term power pur-

chase agreement (PPA), with the balance being sold in the open market.

In FY25, the company saw lower merchant realisation at ₹5.93/ unit vs ₹6.92/unit in FY24. Its PPA tariff during the year was ₹5.60/unit. In FY25, it generated and sold 102 billion units of electricity. Khyalia said the company remains confident of signing PPAs for its upcoming capacity. "Coal supply is not a challenge...there is plenty of coal available in the open market," he said.

## Firm hopes Dhaka will pay all dues

**ADANI POWER HAS** said Bangladesh currently owes about \$900 million, including late payment charges, to the firm but the situation is improving. "We continue to supply full power to Bangladesh. Last quarter, outstanding fell by about ₹500 crore and the payment they are making is more than the monthly billing. We are confident that our outstanding will get liquidated soon," its chief executive SB Khyalia said.

Adani Power restored full electricity supply to Bangladesh in March, four months after it reduced the supply by half over unpaid dues.

—FE BUREAU

## Swiggy's quick food delivery now available in 500+ cities

RAGHAV AGGARWAL  
New Delhi, May 2

**FOOD DELIVERY PLATFORM** Swiggy on Friday said that its 15-minute food delivery service — Bolt — is now operational in over 500 cities across the country. Launched in October last year, Bolt currently accounts for 10% of all the food orders on the platform, a statement from the firm said. In its quarterly results for October-December, the firm's management had informed that this stood at 9%.

Swiggy said that the customers acquired through Bolt show a 4-6% higher retention rate when compared to the platform's average. Currently, Swiggy has over 45,000 restaurant partners, including popular QSR chains like McDonald's, KFC, Subway and Burger King.

To bring down the delivery time, Bolt delivers dishes with minimal preparation time from restaurants within a radius of 2 km. Rohit Kapoor, CEO of Swiggy Food Marketplaces, said, "Seeing it scale to 500-plus cities in just a few months has been incredible. And this is just the beginning."

# Mumbai airport T1 revamp to be delayed

SWARAJ BAGGONKAR  
Mumbai, May 2

**THE REVAMP OF** Mumbai airport's ageing terminal 1 (T1) is likely to get delayed as the upcoming Navi Mumbai airport is expected to take longer-than-anticipated time to achieve operational stability.

The terminal 1 is dedicated to domestic flights and handled 14 million passengers a year. After the revamp, which entails replacing the current building with a modern structure, it will have the capacity to handle 20 million passengers a year.

In January this year, Adani Airport Holdings (AAHL) director Jeet Adani stated that the redevelopment of terminal 1 will start in November and that the Navi Mumbai airport will manage the capacity gap.

However, responding to an analyst's question, Jugeshinder Singh, group chief financial officer, Adani Enterprises,

## TO MISS NOVEMBER DEADLINE

■ Revamp of Mumbai airport's terminal 1 was expected to begin in November

■ Post revamp, its capacity is proposed to increase from **14 mn** passengers a year to **20 mn** passengers



■ Now, renovation work is expected to start after operations at the upcoming Navi Mumbai airport stabilise

said, "We have not finalised the start date (of the demolition of T1), but yes we need to first stabilise the Navi Mumbai airport so that the airlines are comfortable operating there. Once we ourselves are confident of the operational stability of both airports, then

only we will decide." "It won't be a rush, it won't be near-term... Once we announce the proper transition to Navi Mumbai and the operational stabilisation of that airport, in consultation with airlines, we will determine what the best timing is (for the demo-

lition of T1)," Singh added.

The T1 redevelopment plan includes infrastructure upgrades such as district cooling, cutting-edge electrical sub-stations, and a better baggage handling system. Under the plan, passengers will be able to experience seamless connectivity — from direct metro access to underground bus stations. AAHL had announced the inauguration of the redeveloped T1 to take place in 2028-29.

The Navi Mumbai airport is expected to start commercial operations in June, after missing two deadlines. It plans to start operations with domestic flights, followed by international flights a few months later.

AAHL expects to start the work on Navi Mumbai airport's phase 2 immediately after stabilisation of phase 1 which would take the capacity from 20 million to 60 million passengers a year.

## FROM THE FRONT PAGE

# Most iPhones sold in US will be made in India: Apple CEO

**ACCORDING TO** FILINGS and industry estimates, India accounted for 20% of Apple's global iPhone production in FY25, up from 14% in FY24. The company now aims to push this share beyond 25% by the end of FY26. This rapid growth has come within four years of Apple starting iPhone manufacturing in the country under the government's production-linked incentive (PLI) scheme.

The expansion is driven by Apple's three major contract manufacturers, Foxconn and Pegatron in Tamil Nadu, and Tata Electronics in Karnataka, who together produced iPhones worth \$22 billion in FY25. This

translates to nearly 40 million units, of which 32 million, or around 80%, were exported. The bulk of these exports are destined for the US, which alone accounted for 97.6% of shipments in March 2025 following a 219% month-on-month jump in Indian exports, according to S&P Global Market Intelligence.

India's trade advantage over China is a key factor behind Apple's increasing reliance on the country. While Chinese exports of smartphones to the US continue to face a 20% tariff, Indian exports are exempt, giving India a distinct cost edge. This allows Apple to either maintain competitive retail pricing in the US or enjoy bet-

ter margins on Indian-assembled units. Apple's strategic pivot comes amid mixed financial results. The company reported a 5% rise in overall revenue to \$95.35 billion for the second quarter ended March 29, 2025. iPhone sales, however, dipped slightly by 2% to \$46.84 billion, even as services revenue climbed nearly 12% to \$26.64 billion.

In India, Apple recorded its highest-ever shipment volume in the March quarter, growing 29% year-on-year. Meanwhile, sales in Greater China declined by 2.2% to \$16 billion, reflecting the competitive and regulatory headwinds Apple continues to face in that market.

TATVA CHINTAN PHARMA CHEM LIMITED					
CIN: L24232GJ1996PLC029894					
Registered Office : Plot No. 502 / 17, GIDC Estate, Ankleshwar, Dist. Bharuch, Gujarat - 393 002					
Website : www.tatvachintan.com E-mail : cs@tatvachintan.com Tel. No. : +91 75748 48533					
EXTRACT OF CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2025					
(Currency: Indian Rupees in Million, except per share data)					
Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income from operations	1,078.64	858.96	982.66	3,827.14
2.	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	20.27	(2.35)	136.90	75.79
3.	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	20.27	(2.35)	136.90	75.79
4.	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	10.30	1.38	96.14	57.13
5.	Total comprehensive income / (expenses) for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income / (expenses) (after tax))	11.71	0.49	95.75	64.20
6.	Equity share capital	233.92	233.92	233.92	233.92
7.	Reserves (excluding revaluation reserve)			7,154.32	7,136.90
8.	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (not annualised)				
- Basic:		0.44	0.06	4.11	2.44
- Diluted:		0.44	0.06	4.11	2.44
KEY NUMBERS OF STANDALONE STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2025					
(Currency: Indian Rupees in Million)					
Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income from operations (Net)	1,076.48	839.99	939.31	3,664.15
2.	Net profit / (loss) before tax (before exceptional items)	15.54	(16.53)	122.76	4.61
3.	Net profit / (loss) before tax (after exceptional items)	15.54	(16.53)	122.76	4.61
4.	Net profit / (loss) after tax	10.95	(11.65)	82.47	3.27
5.	Total comprehensive income / (expenses)	10.38	(12.19)	81.76	1.10
Notes:					
a) The Consolidated & Standalone Financial Results for the quarter and financial year ended 31 March 2025, were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 02 May 2025.					
b) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and financial year ended 31 March 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of Financial Results for the quarter and financial year ended 31 March 2025, are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the Company's website at www.tatvachintan.com. The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.					
c) Figures for the previous periods / year have been re-classified / re-arranged / re-grouped to conform to classification of current period, wherever necessary.					
For and on behalf of the Board of Directors of Tatva Chintan Pharma Chem Limited					
Sd/- Chintan N. Shah Chairman and Managing Director DIN: 00183618					
Place : Vadodra, Gujarat, India. Date : 02 May 2025					

**GRAVITA**  
AN INDIAN MULTINATIONAL COMPANY

**Recycling**  
For A Better Tomorrow

**GLOBAL FOOTPRINT**  
Network Spread Over 70+ Countries Across 6 Continents

**13 ECO CONSCIOUS**  
State-of-the-art Manufacturing Facilities

**RECYCLING DNA**  
32 Years | 5 Business Verticals

At Gravita, we understand that responsible recycling not only creates sustainable value for the green economy but also for all our stakeholders. We have maintained a growth trajectory and are confident to keep progressing on our vision:

**"To be the most valuable company in the recycling space globally."**

We recycle to save environment

**REVENUE +22%**

**EBITDA +22%**

**PAT +31%**

S.No	Particulars	Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.12.2024	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations (Net)	1,072.82	1,025.28	888.30	3,980.61	3,238.56
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items, Share of Loss of Associate)	114.57	89.11	72.22	363.46	274.15
3	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax (After Exceptional Items and/or Extraordinary Items)	114.57	89.11	72.22	363.46	274.15
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	94.92	78.06	69.42	312.90	242.28
5	Total Comprehensive Income for the period	82.51	93.64	65.15	296.25	230.85
6	Equity Share Capital (Face value per share Rs 2/-)	14.76	14.76	13.81	14.76	13.81
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)				2,055.15	823.59
8	Earnings Per Share (After Tax & minority interest) (of Rs 2/- each)					
(a) Basic		13.04	11.35	9.92	45.11	34.88
(b) Diluted		13.04	11.35	9.92	45.11	34.88

**Key Numbers of Audited Standalone Financial Results** (Rs. in Crores)

1	Turnover (Net Sales)	860.29	819.04	720.86	3,222.77	2,679.07
2	Profit Before Tax	91.05	39.78	49.83	232.92	208.22
3	Profit After Tax	73.52	34.21	46.93	194.13	179.62

**NOTES:**

(A) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31st March 2025 results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarter and Year ended 31st March 2025 results are available on the website of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com, and also available on the website of the company viz. https://www.gravitaindia.com/investors/financial-details. The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

(B) The above results have been reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 1st May, 2025 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 02nd May 2025

(C) Interim dividend of Rs.6.35 per share (on the face value of Rs.2 Per equity share) amounting to Rs.46.87 Crores, has been approved by the Board of Directors at their meeting held on May 02, 2025.

**Place : Jaipur**  
**Date : 02<sup>nd</sup> May 2025**  
**Gravita India Limited**  
CIN: L29108RJ1992PLC006870  
Registered Office: Saurabh, Chittora Road, Harsulia Mod, Diggi Malpura Road, Tehsil - Phagi, Jaipur 303904 (Raj.)  
Telephone: +91- 41-4057700 | Email: companysecretary@gravitaindia.com  
Website: www.gravitaindia.com

**For Gravita India Limited**  
Sd/-  
**Yogesh N. Mahotra**  
Whole-time Director & CEO  
DIN : 05332393



# NEW KID ON THE BRAND WAGON



PHOTO: REUTERS

At 14, IPL’s youngest player, Vaibhav Suryavanshi, is well on the endorsement path — provided he doesn’t lose sight of his game

ROSHNI SHEKHAR & SHARLEEN D'SOUZA  
Mumbai, 2 May

Vaibhav Suryavanshi turned heads when he was snapped up by the Rajasthan Royals for ₹1.1 crore in the Indian Premier League (IPL) auctions — at just 14 years of age. Then he went on to set the stage alight, smashing a 100 off just 35 balls against Gujarat Titans, sending the crowd into a frenzy.

Blazing 11 sixes and seven boundaries, Suryavanshi now holds the record for the fastest century in T20 history — a feat that has not only electrified fans but also piqued the interest of brands eager to sign him for endorsements.

Promising as his entry into the cricketing spotlight is, there are voices of concern, too, focused largely on how he would take this fame and what he would make of it in the years to come.

Brand experts say that while the young prodigy has already created history, there’s a concern that the sudden fame could overwhelm him. However, if he remains grounded, they believe, he could be a rare talent worth investing in.

A source, speaking on the condition of anonymity, reveals that before his explosive century, Suryavanshi’s endorsement fee was around ₹75 lakh. It’s a claim that could not be independently verified. The source adds that this figure could rise noticeably depending on his performance across the tournament.

Harikrishnan Pillai, chief executive officer (CEO) and cofounder of TheSmallBigIdea, a Mumbai-based digital marketing agency, says Suryavanshi is exactly the kind of breakout story brands want to act on quickly — or play “fastest finger first” with, as he puts it.

“He is smashing veterans like they are some plastic ball rookies. However, right now, he’s just the perfect ‘recency rocket,” Pillai says. “The real test (and brand jackpot) will be consistency. If he avoids the vices of off-field fame and doesn’t start living a highlight reel life, endorsements will flow and stick.”

Pillai adds that brands chasing youth appeal — from sneakers to systematic investment plans (SIPs) — are eyeing someone just like him. “Frankly, he’s the ‘Mutual fund *sahi hai*’ poster boy — a walking example of the power of early

## YOUNG GUNS



**SACHIN TENDULKAR**  
Burst on the international cricket scene at age 16, making his debut against Pakistan on November 15, 1989. In 2010, he would become the first cricketer to hit a 200 in a men’s One Day International (ODI)



**SANIA MIRZA**  
Who began playing tennis at age 6 and turned professional at 16, is India’s first female tennis player to win six Grand Slam titles and become World No. 1 in doubles ranking



**PV SINDHU**  
Started competing in international badminton tournaments at age 14, won a bronze at 19 at the 2014 Commonwealth Games, and brought home a silver from the 2016 Rio Olympics



**VISWANATHAN ANAND**  
Five-time World Chess Champion, won the Indian sub-junior chess championship at 14; became the first grandmaster from India in 1988



**BAICHUNG BHUTIA**  
Joined professional East Bengal FC in Kolkata at age 16; is the first Indian footballer to sign a contract with a European club, and be inducted into the Asian Football Hall of Fame

Note: This is not an exhaustive list

investment,” he says.

Pillai’s view is that for now, Suryavanshi is an influencer, not yet an ambassador. “But give him a couple of seasons, a cool head, and some long-term form, and he won’t just be in campaigns — he’ll *be* the campaign.”

Veteran advertising professional KV Sridhar, who is the global chief creative officer at consulting and services firm Nihilent, points out that Suryavanshi represents a new generation of cricketers — one born *after* the IPL itself. He describes the teenager’s playing style as “fearless” — “just playing with global stars, and (he) has absolutely no fear! What could the mindset be?” he remarks.

True. There’s no one else his age playing T20 at this level anywhere, rubbing shoulders with international greats.

For Sridhar, Suryavanshi symbolises the bold mindset of tomorrow’s cricket — and for that, “he’s worth in gold”. “Even if he fails in this IPL, and in the rest of the matches, he will still symbolise the mindset of that generation. Therefore, it is worth it for any young brand to pick him up,” he says.

On comparisons to other young players, Sridhar counters that nobody else is 14.

Whether you’re 13 or 14, hitting a century in 40 balls with that many sixes requires not just skill but immense strength and nerve, he says, adding that this kind of courage is exceptional at his age.

For brands that started circling as soon as Suryavanshi hit the century, Sandeep Goyal, chairman of ad agency Rediffusion, has a word of advice: “At 14, we should not start looking at him as a brand, and even if brands take him, they should take him as a passive endorser and not an active one.”

While acknowledging that this youngster is a prodigy, Goyal stresses the importance of staying focused and not getting distracted by the glitz and glamour. He gives the example of Sachin Tendulkar, who, he says, kept his head in the game, while others — like Vinod Kambli and Prithvi Shaw — got caught up in the glitter of fame.

He is also of the view that “Suryavanshi, while he is still young, needs to take on brands that are more service-oriented than product-oriented”.

N Chandramouli, CEO of market research firm TRA Research, feels that as long as he continues to play decently, brands will continue to chase him. What’s important is that the celebrity status doesn’t go to his head, he adds. Fortunately, “he does seem like he can maintain his calm and focus on the game, which is very crucial”.

There is another critical aspect in all of this, which both Goyal and Chandramouli point out: Suryavanshi, being a minor, cannot sign brand deals himself — his parents would need to sign on his behalf.

Young as he is, for now, that’s perhaps a blessing.

**SANOFI CONSUMER HEALTHCARE INDIA LIMITED**  
Registered Office: Unit 1104, 11<sup>th</sup> Floor, Godrej Two, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli East, Mumbai-400079, Maharashtra  
**Corporate Identity Number:** L21002MH2023PLC402652 | **Tel No.:** +91 (22) 4528 8855  
**Website:** www.sanofi.in • **Email:** igrc.schil@sanofi.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2025

Particulars	Quarter ended 31.03.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Unaudited)	Year ended 31.12.2024 (Audited)
Total income from operations	1778	1757	2246	7375
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	668	657	839	2752
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	668	628	839	2468
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	500	443	627	1810
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	500	429	627	1796
Equity Share Capital	230	230	20	230
Share capital pending for allotment	-	-	230	-
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	2500
Basic and diluted earnings per share Rs 10/- each)	21.69	19.25	27.22	78.59

Date: 02<sup>nd</sup> May 2025

For and on behalf of the Board of Directors of  
SANOFI CONSUMER HEALTHCARE INDIA LIMITED

Sd/-  
**Himanshu Bakshi**  
Managing Director  
DIN: 08188412

AN INDIAN MULTINATIONAL COMPANY

**Recycling**  
For A Better Tomorrow

**GLOBAL FOOTPRINT**  
Network Spread Over 70+ Countries Across 6 Continents

**13 ECO CONSCIOUS**  
State-of-the-art Manufacturing Facilities

**RECYCLING DNA**  
32 Years | 5 Business Verticals

**REVENUE +22%**

FY 24	3,161 Cr.
FY 25	3,869 Cr.

**EBITDA +22%**

FY 24	331 Cr.
FY 25	404 Cr.

**PAT +31%**

FY 24	239 Cr.
FY 25	312 Cr.

(Rs in Crores)

Statement of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2025 (Rs. in Crores)					
S.no	Particulars	Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.12.2024	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations (Net)	1,072.82	1,025.28	888.30	3,980.61
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items, Share of Loss of Associate)	114.57	89.11	72.22	363.46
3	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax (After Exceptional Items and/or Extraordinary Items)	114.57	89.11	72.22	363.46
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	94.92	78.06	69.42	312.90
5	Total Comprehensive Income for the period	82.51	93.64	65.15	296.25
6	Equity Share Capital (Face value per share Rs 2/-)	14.76	14.76	13.81	14.76
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)				2,055.15
8	Earnings Per Share (After Tax & minority interest) (of Rs 2/- each)				
	(a) Basic	13.04	11.35	9.92	45.11
	(b) Diluted	13.04	11.35	9.92	45.11
Key Numbers of Audited Standalone Financial Results (Rs. in Crores)					
1	Turnover (Net Sales)	860.29	819.04	720.86	3,222.77
2	Profit Before Tax	91.05	39.78	49.83	232.92
3	Profit After Tax	73.52	34.21	46.93	194.13

**NOTES:**

(A) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31st March 2025 results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarter and Year ended 31st March 2025 results are available on the website of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. and also available on the website of the company viz. https://www.gravitaindia.com/investors/financial-details . The same can be access by scanning the QR code provided below.

(B) The above results have been reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 1st May, 2025 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 02nd May 2025

(C) Interim dividend of Rs.6.35 per share (on the face value of Rs.2 Per equity share) amounting to Rs.46.87 Crores, has been approved by the Board of Directors at their meeting held on May 02, 2025.

Place: Jaipur  
Date: 02<sup>nd</sup> May 2025

**Gravita India Limited**  
CIN: L2930RJ1992PLC006870  
Registered Office: Saurabh, Chittora Road, Harsulia Mod, Diggi Malpura Road, Tehsil - Phagi, Jaipur 303904 (Raj.)  
Telephone: +91-11-4057700 | Email: companysecretary@gravitaindia.com  
Website: www.gravitaindia.com

Scan to View Result

**For Gravita India Limited**  
Sd/-  
**Yogesh Mahotra**  
Whole-time Director & CEO  
DIN : 01332393



## यूट्यूब की इंडियन 'कंटेंट' तैयार करने वालों पर 850 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट की योजना



मुंबई@एजेंसी। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने इंडियन 'कंटेंट' तैयार करने वालों, कलाकारों और मीडिया कंपनियों की वृद्धि को तेज करने के लिए 850 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना बनाई है। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गत तीन वर्षों में यूट्यूब ने पूरे भारत में रचनाकारों, कलाकारों और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। गत वर्ष भारत में तैयार वीडियो सामग्री (कंटेंट) को देश के बाहर के दर्शकों ने 45 अरब घंटे तक देखा।

विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेक्स) के एक सत्र में कहा कि अगले दो वर्षों में यूट्यूब भारतीय रचनाकारों, कलाकारों और मीडिया कंपनियों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए 850 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय 'कंटेंट क्रिएटर' इस बात का उदाहरण हैं कि भारत में क्या खास है और वह दुनिया के हर कोने में मौजूद दर्शकों के साथ इतिहास, संस्कृति और जुनून को साझा करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को दुनिया भर के रचनाकारों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना दिया है, जो उनकी खुद की गत वर्ष देश के 10 करोड़ से ज्यादा चैनलों ने यूट्यूब पर 'कंटेंट अपलोड' किए, जिनमें से 15,000 से ज्यादा चैनलों के सब्सक्राइबर 10 लाख से अधिक थे। यह कुछ महीने पहले के 11,000 चैनलों ज्यादा है। यूट्यूब ने इन रचनाकारों और अनगिनत लोगों को न सिर्फ अपने जुनून को दुनिया के साथ साझा करने में सक्षम बनाया है, बल्कि वफादार प्रशंसक और सफल व्यवसाय बनाने में भी मदद की है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में ही हमने पूरे भारत में रचनाकारों, कलाकारों और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान किया है। मोहन ने कहा कि किसी भी जगह के रचनाकार को हर जगह के दर्शकों से जोड़ने की क्षमता ने यूट्यूब को सांस्कृतिक नियंत्रण का एक शक्तिशाली इंजन बना दिया है, और कुछ ही देशों ने इसका भारत जितना प्रभावी लाभ उठाया है।

## हैरिडिटी डिजीज की पहचान में भी मददगार हो सकता है AI

नई दिल्ली@आईएनएस। एक नए अध्ययन के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जल्दी ही आनुवंशिक बीमारियों की पहचान और इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एएनयू) के वैज्ञानिकों ने किया है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, इसका मकसद दवाइयों और इलाज को और ज्यादा सटीक और व्यक्ति विशेष के अनुसार बनाना है। यह काम नए तरह के डाटा टूल्स की मदद से किया गया है। यह शोध नेचर कम्युनिकेशन्स में छपा है। इसमें एआई से चलने वाले प्रोटीन मॉडल और जीनोम सिम्युलेशन को मिलाकर यह समझने की कोशिश की गई है कि जीन में बदलाव (म्यूटेशन) इंसानी सेहत पर कैसे असर डालते हैं।

इसमें गूगल की डीपमाइंड कंपनी द्वारा बनाए गए एडवांस्ड एआई टूल अल्फाफोल्ड का उपयोग किया गया। इससे वैज्ञानिकों ने यह समझा कि कुछ प्रोटीन हानिकारक बदलावों से ज्यादा प्रभावित क्यों होते हैं, और कुछ नहीं। अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. डैन एंड्रयूज के अनुसार, समय के साथ प्रकृति ने सबसे जरूरी प्रोटीनों को इस तरह विकसित किया है कि वे नुकसानदायक बदलावों को झेल सकें। लेकिन जो प्रोटीन कम जरूरी हैं, उनमें यह क्षमता कम पाई गई। एएनयू के जॉन कर्टिन स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जो जीन बहुत जरूरी नहीं माने जाते, वही कई बार गंभीर आनुवंशिक बीमारियों की वजह बन जाते हैं। एंड्रयूज ने बताया कि जीन में बदलाव लगातार होते रहते हैं और टालना मुश्किल है। कुछ जीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें कम ही बदलाव देखे जाते हैं, लेकिन कुछ जीन थोड़े कम महत्वपूर्ण होते हुए भी इतने जरूरी होते हैं कि उनमें बदलाव होने पर बीमारी हो सकती है। यह शोध यह समझने में मदद करता है कि कौन-से जीन बीमारियों में ज्यादा असर डालते हैं और किनका इलाज पहले करना चाहिए। एंड्रयूज ने बताया कि अगर हमें पता चल जाए कि किसी व्यक्ति के शरीर में कौन-सी आनुवंशिक प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही, तो हम इलाज चुनने में ज्यादा सटीक हो सकते हैं।

# व्हाइट-कॉलर हायरिंग में अप्रैल में 9 प्रतिशत की ग्रोथ

नई दिल्ली@आईएनएस। भारत में व्हाइट-कॉलर हायरिंग ने वित्त वर्ष 2025-26 में अच्छी शुरुआत दर्ज की है, जिसमें शुरुआती महीने अप्रैल में एन्यूअल लेवल पर 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। जब पोर्टल नौकरी की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह वृद्धि कई सेक्टर में हायरिंग को लेकर तेजी की वजह से देखी गई। हायरिंग एक्टिविटी में फार्मा 14 प्रतिशत, रियल एस्टेट 11 प्रतिशत, जीसीसी 10 प्रतिशत और ऑयल एंड गैस 9 प्रतिशत की तेजी के साथ प्राथमिक योगदानकर्ता के रूप में उभरे।

आईटी/सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर में अप्रैल में 3 प्रतिशत की भी वृद्धि दर्ज की गई। कुछ विशेष भूमिकाओं के लिए मांग में मजबूती रही, जिसमें फुल स्टैक डेवटा साइंटिस्ट में 30 प्रतिशत, बिग डेटा ऐनालिटिक्स इंजीनियर 26 प्रतिशत और डेटा प्लेटफॉर्म स्पेशलिस्ट में 28 प्रतिशत तेजी रही। हायरिंग एक्टिविटी में यूनिर्कॉन 15 प्रतिशत तेजी के साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे



निकल गए, जो उभरते, डिजिटल-फ्रंट एंटरप्राइज में निरंतर बढ़ती मांग को दिखाती है। फार्मा और बायोटेक में वृद्धि का नेतृत्व लाइफ साइंसेज और अनुसंधान तथा विकास ने पेशेवरों की मजबूत मांग के साथ किया, जिसमें पेशेवरों की मांग क्रमशः 20 प्रतिशत और 16 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंगलुरु, चेन्नई और पुणे प्रमुख प्रतिभा केंद्र बनकर उभरे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर की वृद्धि ने मार्च में देखी गई गिरावट को

उलट दिया। सेक्टर की प्रोक्योरमेंट और सप्लाय चेन में 25 प्रतिशत और सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में 12 प्रतिशत भी वृद्धि ने वृद्धि को समर्थन दिया। नौकरी डॉट कॉम के मुख्य व्यवसाय अधिकारी ने कहा कि कुछ महीनों में मिड-सिंगल डिजिट की वृद्धि देखे जाने के बाद इस साल कई प्रमुख क्षेत्रों में दोहरे अंकों की वृद्धि देखना उसाहजनक है। इसके अलावा, रिपोर्ट दर्शाती है कि अप्रैल में फ्रेश ग्रेजुएट्स की भी मांग सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें एफएमसीजी में 16 प्रतिशत, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 15 प्रतिशत, ऑयल एंड गैस में 23 प्रतिशत और ब्यूटी एंड वेलनेस में 26 प्रतिशत की वृद्धि रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा, टेक्नोलॉजी आईटी और बीएफएसआई सेक्टर से परे एंटी लेवल हायरिंग अवसरों के क्रमिक विविधीकरण को उजागर करता है। प्रीमियम टैलेंट की मजबूत मांग और प्रमुख नॉन-आईटी सेक्टर में फ्रेश हायरिंग में वृद्धि, दो ध्यान दिए जाने वाले बड़े ट्रेंड हैं।

# गोवा में लार्ज लिविंग स्पेसेज की डिमांड High Rise पर

नई दिल्ली@एजेंसी

गोवा एक ऐसा राज्य है, जहां पर ट्यूरिज्म वर्षभर हाईराइज पर रहता है। ऐसे में यहां का प्रॉपर्टी मार्केट भी हलचल बनाये रखता है। गोवा में सुपर लजरी बूटिक विलाज का मार्केट तेजी से विकसित हो रहा है। पचास करोड़ रुपये से अधिक की प्राइस वाली यूनिट्स में शानदार वृद्धि देखने को मिल रहा है। इसका कारण है कि स्टार्टअप फाउंडर्स, स्पोर्ट्स सेलीब्रिटीज, लोकल डबलपर्स, नेक्स्ट जेनरेशन बिजनेस हाउसेज और प्रॉपर्टी कन्सल्टेंट्स की ओर से डिमांड हाई है। पोस्ट कोविड गोवा में बूटिक प्रॉपर्टीज, लार्ज लिविंग स्पेसेज और शानदार व्यु वाली प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ी है। ऐसे एक्सक्लूसिव होम्स की इवेंटरी लिमिटेड है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कहा है कि बायर्स के बीच कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है और ऐसी प्रॉपर्टीज की संख्या लिमिटेड है। डबलपर्स का फोकस भी डिमांड को देखते हुए अल्ट्रा लजरी सेगमेंट पर शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्लाइटेल डबलप होने के कारण डबलपर्स ऐसी प्रॉपर्टीज की ओर रुचि ले रहे हैं। देश के सबसे बड़े डबलपर डीएलएफ भी



गोवा रियल एस्टेट मार्केट में एंटर कर रहे हैं। सितम्बर में बीच साइट हॉलीडे डेस्टीनेशन प्रोजेक्ट के लांच होने की सम्भावना है। प्रोजेक्ट में 62 अल्ट्रा लजरी विला होंगे, जो कि पहाड़ी पर स्थित होंगी। प्राइस करीब 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपये के बीच होगी। डीएलएफ होम डबलपर्स के जॉइंट

मैनेजिंग डायरेक्टर और सीबीओ ने कहा है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्रिफरेंस शिफ्ट हो रही है। हाई वॉल्यू हॉलीडे होम्स जो कि नेचुरल व्युटी के बीच हो, इसकी मांग मैट्रो शहरों में बढ़ रही है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडीक्विज्युअल्स, एनआरआई, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के बीच लजरी

लिविंग की डिमांड ज्यादा देखने में आ रही है। गोवा सैकंड होम के लिए प्राइम डेस्टीनेशन के रूप में इमर्ज हो रहा है। इसलिये लजरी डबलपमेंट देखे जा रहे हैं। सन एस्टेट्स डबलपर्स ने वर्ष 2000 में गेटेड विला ट्रेड की शुरुआत की थी और अभी तक क्रिकेट और बॉलीवुड के लिये लजरी होम प्रोवाइड कर चुके हैं। वर्तमान में इस्रावा गोवा में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इस्रावा ग्रुप के फाउंडर और सीओओ ने कहा है कि इस कैटेगरी का बायर स्पेस या लोकेशन पर समझौता नहीं करता है। अल्ट्रा एचएनआई गोवा में पचास करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी आराम से ले लेता है और फैसिलिटीज कम है तो समझौता नहीं करता। डिमांड और सप्लाय मिसमैच के कारण फिलहाल इस सेगमेंट में रेडी-टू-मूव इन्वेंटरी नहीं है। गोवा की बात करें यह रिच इंडियंस के लिये वेकेशन होम्स के लिये इन्वेस्टमेंट का टॉप ऑप्शन है। सूबधे इंटरनेशनल रियलिटी लजरी आउटलुक सर्वे 2024 के अनुसार 35 प्रतिशत हॉलीडे होम बायर्स ने कहा कि गोवा को वे सैकंड होम डेस्टीनेशन के रूप में प्राथमिकता देते हैं। रिच इंडियंस की टॉप चॉइस गोवा में अल्ट्रा लजरी विला लेना है।

# Gen G के लिये स्मार्टफोन सलैक्शन में चिप परफॉर्मेंस टॉप प्रायोरिटी

नई दिल्ली@एजेंसी

इन्डिया की जेन-जी पापुलेशन तेजी से टेक्नोलॉजी क्रेजी और जानकार बनती जा रही है। 46 प्रतिशत जेन-जी आबादी का कहना है कि उनके लिए स्मार्टफोन को खरीद को लेकर चिपसेट की परफॉर्मेंस बेहद मायने रखती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि किंग यूजर्स ने केवल लुक्स और प्राइस को देखते हुए अपने लिए एक नया स्मार्टफोन चुन रहे हैं, बल्कि उनके लिए यह भी मायने रखने लगा है कि फोन में कौन-सा चिपसेट है।

सीएमआर के इंडस्ट्री रिसर्च ग्रुप के वीपी प्रभु राम के अनुसार कि जेन-जी एक उल्लेखनीय मोड़

पर है, जो पहली ग्लोबली कनेक्टेड पीढ़ी है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। उनके लिए स्मार्टफोन न केवल डिवाइस हैं, बल्कि पहचान की अभिव्यक्ति और एक्सप्लोरेशन के लिए टूल भी हैं। वे हाई-परफॉर्मेंस की मांग करते हैं, चाहे फिर यह गेमिंग के लिए हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए हो या कार में इन्फोटेनमेंट हब को लेकर उनकी उम्मीदों से जुड़ा हो।


इन सभी एक्सपीरियंस को नेक्स्ट-जेनरेशन चिपसेट पावर कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जेन-जी पहली टू डिजिटल-नेटिव जेनरेशन है, जिसका जन्म स्मार्टफोन के युग में हुआ है और वे टेक्नोलॉजी से गहराई से जुड़े हैं। गेमिंग से जेनएआई तक, वे नए टेक अनुभवों को तेजी से अपनाने में माहिर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है





कि जेन-जी के लिए केवल लोकर ब्रांड को भी प्राथमिकता देते हैं। जेन-जी की बढ़ती उम्मीदें केवल स्मार्टफोन तक ही सीमित

नहीं हैं। स्टडी में पाया गया है कि वे कारों को डिजिटल लाइफस्टाइल के हिस्से के रूप में देखते हैं। वे एडवांस सेप्टी फीचर्स, फास्ट चार्जिंग, एनजी एफिशिएंसी और कनेक्टेड एक्सपीरियंस के साथ स्मार्ट व्हीकल को अहमियत देते हैं। 72 प्रतिशत जेन-जी पापुलेशन का मानना है कि कनेक्टेड व्हीकल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बदलते हैं। गेमिंग एक दूसरा एरिया है, जहां वे काफी एक्टिव हैं। करीब चार में से तीन जेन-जी यूजर


स्मार्टफोन गेमिंग में हफ्ते भर में 6 घंटे तक बिताते हैं। उनके लिए सोशल मीडिया और दोस्त नए गेम खोजने के मुख्य स्रोत हैं। बढ़ती संख्या में लोग प्रीमियम गेमिंग एक्सपीरियंस और ई-स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं। एनेलिस्ट ने कहा कि नई जेनरेशन कंज्यूरर टेक से जुड़े भविष्य को आकार दे रही है। वे डिमांडिंग, उत्सुक और बेहतर जानकारी रखने वाले हैं। इनसे ब्रांड को तेजी से इनोवेट करने में मदद मिलती है।

**GRAVITA**  
AN INDIAN MULTINATIONAL COMPANY

**GLOBAL FOOTPRINT**  
Network Spread Over 70+ Countries Across 6 Continents

**13 ECO CONSCIOUS**  
State-of-the-art Manufacturing Facilities

**RECYCLING DNA**  
32 Years | 5 Business Verticals

**Recycling**  
For A Better Tomorrow

At Gravita, we understand that responsible recycling not only creates sustainable value for the green economy but also for all our stakeholders. We have maintained a growth trajectory and are confident to keep progressing on our vision:  
**“To be the most valuable company in the recycling space globally.”**  
**We recycle to save environment**

**REVENUE +22%**  
FY 24 3,161 Cr.  
FY 25 3,869 Cr.

**EBITDA +22%**  
FY 24 331 Cr.  
FY 25 404 Cr.

**PAT +31%**  
FY 24 239 Cr.  
FY 25 312 Cr.

Statement of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2025 (Rs. in Crores)


S.no	Particulars	Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.03.2024	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations (Net)	1,072.82	1,025.28	888.30	3,980.61	3,238.56
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items, Share of Loss of Associate)	114.57	89.11	72.22	363.46	274.15
3	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax (After Exceptional Items and/or Extraordinary Items)	114.57	89.11	72.22	363.46	274.15
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	94.92	78.06	69.42	312.90	242.28
5	Total Comprehensive Income for the period	82.51	93.84	65.15	296.25	230.85
6	Equity Share Capital (Face value per share Rs 2/-)	14.76	14.76	13.81	14.76	13.81
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)				2,055.15	823.59
8	Earnings Per Share (After Tax & minority interest) (Of Rs 2/- each)				45.11	34.88
	(a) Basic	13.04	11.35	9.92	45.11	34.88
	(b) Diluted	13.04	11.35	9.92	45.11	34.88

Key Numbers of Audited Standalone Financial Results (Rs. in Crores)

1	Turnover (Net Sales)	860.29	819.04	720.86	3,222.77	2,679.07
2	Profit Before Tax	91.05	39.78	49.83	232.92	208.22
3	Profit After Tax	73.52	34.21	46.93	194.13	179.62

NOTES:  
(A) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31st March 2025 results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarter and Year ended 31st March 2025 results are available on the website of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. and also available on the website of the company viz. https://www.gravitaindia.com/investors/financial-details . The same can be access by scanning the QR code provided below.  
(B) The above results have been reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 1st May, 2025 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 02nd May 2025  
(C) Interim dividend of Rs.6.35 per share (on the face value of Rs.2 Per equity share) amounting to Rs.46.87 Crores, has been approved by the Board of Directors at their meeting held on May 02, 2025.

Place : Jaipur  
Date : 02 May 2025  
**Gravita India Limited**  
CIN: L29308RJ1992PLC006870  
Registered Office: Jaipur, Chittora Road, Harsulia Mod, Diggi Malpura Road, Jaipur - 303904 (Raj.)  
टैलेंट की मजबूत मांग और प्रमुख नॉन-आईटी सेक्टर में फ्रेश हायरिंग में वृद्धि, दो ध्यान दिए जाने वाले बड़े ट्रेंड हैं।  
Website: www.gravitaIndia.com

  
Scan to View Result

For Gravita India Limited  
Sd/-  
**Yogesh N. Jhotra**  
Whole-time Director & CEO  
DIN : 0332393







SC Urges Law Ministry to Fix Arbitration Regime Gaps

Indu Bhan

New Delhi: The Supreme Court on Friday called on the ministry of law and justice to take a serious look at the arbitration regime prevailing in India and bring about necessary changes while the Arbitration and Conciliation Bill 2024 is still being considered.

It said that it is indeed very "sad" to note that even after so many years, procedural issues with regard to the Arbitration and Conciliation Act, 1996, have continued to plague the arbitration regime of India.

While expressing strong disapproval over the continued absence of statutory clarity on the power of arbitral tribunals to implead non-signatories to the arbitration agreements, it said what is expressly missing in the Arbitration and Conciliation Act 1996 is still missing in the 2024 bill, despite a catena of decisions by the apex court and various high courts, a bench of justices J B Pardiwala and R Mahadevan said.

"Unfortunately, even the new bill has taken no steps whatsoever for ameliorating the position of law as regards the power of impleadment or joinder of an arbitral tribunal," it said while highlighting the need for statutory recognition of such power in order to obviate all possibilities of confusion.

The court noted that the Arbitration Act was the first legislative enactment that dealt with arbitration that came into force in 1940.

Fifty years later, this legislation was replaced by the Arbitration and Conciliation Act, 1996. It has been almost 30 years since the Act, 1996 has remained in force. Various amendments to the Act, 1996 have been made over the years so as to ensure that arbitration proceedings are conducted and concluded expeditiously. "For arbitration to remain a viable and effectively alternative mechanism for dispute resolution, it is imperative to ensure that commercial reality does not outgrow this mechanism. The mechanisms of arbitration must be sufficiently elastic to accommodate the complexities of multi-party and multi-contract arrangements without compromising foundational principles such as consent and party autonomy," the bench said.

Equal Focus on Tariff, Non-Tariff Barriers in EU Trade Talks: Goyal

Negotiations for investment protection, geographical indications also underway



Commerce minister Piyush Goyal and European Commission for Trade Maros Sefcovic in Brussels on Thursday

Our Bureau

New Delhi: The proposed free trade agreement (FTA) between India and the EU will have equal focus on tariff and non-tariff barriers, New Delhi has said as it reaffirmed the conclusion of the FTA by the end of 2025.

"We have given equal focus on both sides to non-tariff barriers along with tariff in our trade talks," commerce and industry minister Piyush Goyal said after his meeting with European Commission for Trade and Economic Security commissioner Maros Sefcovic in Brussels on Thursday. "We are both equally concerned to make the market access very meaningful for both countries while respecting the sensitivities that our businesses or our economies may have in certain sectors," he said.

He also said that regulatory frameworks must be inclusive, proportionate and avoid restricting trade.

"The agreement, once concluded, will certainly be a transformative pillar of the deep partnership between the European Union and India, enhancing market access, aligning our regulatory practices and boosting innovation and competitiveness," Goyal said.

Goyal and Sefcovic engaged in a forward-looking and substantive dialogue to address global trade challenges, according to a statement issued by the commerce and industry ministry on Thursday.

"The high-level engagement underscores the strategic importance both partners attach to building a commercially meaningful, mutually beneficial, balanced, and a fair trade partnership that supports economic resilience and inclusive growth," the ministry said.

The meeting emphasised importance of maintaining ongoing momentum through monthly negotiating rounds and continued virtual engagement. Both sides reiterated their aim to address pending issues.

The 11th round of the FTA negotiation is scheduled from May 12 to 16 in New Delhi.

India and the EU restarted negotiations for an FTA after a nine-year hiatus in June 2022. Despite nine intense rounds of talks, progress has been slow. Separate negotiations for an investment protection agreement and an agreement on geographical indications in June 2022 are also underway.

"Both sides acknowledged the crucial role of investment flows and people-to-people mobility in sustaining economic vitality," the statement said.

Vizhinjam Seaport will Bring Economic Stability, says PM



PM Narendra Modi, Adani Group chief Gautam Adani, Kerala CM Pinarayi Vijayan along with others in Thiruvananthapuram on Friday

PTI

Thiruvananthapuram: Prime Minister Narendra Modi officially commissioned the Vizhinjam International Seaport on Friday, stating that the capacity of this transshipment hub would triple in the coming years, allowing some of the world's largest cargo ships to dock smoothly.

In his speech following the commissioning of the Rs 8,686 crore project, he noted that 75% of India's transshipment operations had previously been carried out at foreign ports, resulting in significant revenue loss for the country.

Emphasising that this scenario is now set to change, Modi asserted that Indian money would now serve India, and the funds that once flowed out of the country would instead generate new economic opportunities for Kerala and the people of Vizhinjam.

He said ships from Kerala had long carried goods to other nations, establishing it as a vital hub for global commerce.

"Today, the Government of India is committed to further strengthening this channel of economic power," the Prime Minister said, adding: "India's coastal states and port cities will become key centres for the growth of a developed India."

Praising the Vizhinjam port, developed by Adani Ports, Modi said people from Gujarat might be disappointed with Adani Group chairman Gautam Adani for building such a large port in Kerala, despite hailing from the western Indian state himself.

Modi also noted that Kerala Ports Minister V N Vasavan had referred to the Adani Group as a "partner" of the Communist-led state government, describing this

Port to Handle All Transshipment Cargo in a Yr: Karan Adani

THIRUVANANTHAPURAM: Within one year, India's all transshipment cargo will be handled from Vizhinjam International Seaport as this strategic deep-water maritime project is 'much better equipped, Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) managing director Karan Adani said on Friday. "Vizhinjam International Seaport is much better equipped... Give us a year, you will see all Indian ships getting transhipped from here," Adani said. "Our ultimate goal is to reduce logistics cost by 30% by increasing efficiency and reducing turn-around time," he said. -PTI

as symbolic of the changes taking place in the country.

Highlighting the importance of the private sector in advancing India's maritime industry, Modi said that under the Public-Private Partnership (PPP) model, investments worth thousands of crores had been made over the past decade. He stated that this collaboration had not only brought India's ports up to international standards but had also made them future-ready, with private sector involvement driving innovation and increasing efficiency.

Finance Secy Moots Rating State Govt Debt

Our Bureau

New Delhi: Finance secretary Ajay Seth on Friday floated the idea of rating state government securities based on their fiscal behaviour, as he pitched for a market-driven, independent mechanism to bring about discipline among states.

In the absence of such a mechanism, Seth stressed, the borrowing costs of those that are fiscally prudent are not much different from those that are not. A rating mechanism could, therefore, influence the yield of state government papers, incentivise good fiscal behaviour and discourage financial profligacy, he indicated.

Seth, who was speaking at a conference of the Isaac Centre for Public Policy in the national capital, said that the Centre had initiated steps to curb unbridled off-budget borrowings by states, which was one way of enforcing some fiscal discipline. This move, however, has been legally challenged by some states.

On the sidelines of the event, he said the World Bank has agreed to tweak the methodology of its governance indicator, heeding the voice of India and some others that push for an improvement in it.

Global rating agencies, which assign about 15% weight to governance in their sovereign rating assessments, rely on the World Bank's



Worldwide Governance Indicators (WGI). Senior Indian officials have flagged the excessively subjective nature of the WGI and pitched for a more objective assessment.

'PRIVATE SECTOR-LED GROWTH'

Seth said the country's macro-economic goals should be balanced in such a manner that it encourages more private sector-led growth, with the government playing the role of the facilitator.

He said economic growth, as per various projections, would remain in the range of 6.2-6.8% in the current fiscal. In case of adverse global conditions, the growth rate could be at the lower end of the range, but if external headwinds don't exacerbate further, the rate of expansion could hit the upper band, he indicated.

The finance secretary reaffirmed commitment to the fiscal consoli-

dation course to reduce the country's elevated debt-to-GDP ratio. He said global rating agencies look at India more cautiously, assuming its elevated debt levels can constrain its ability to tide over another big crisis such as the pandemic. This is because its interest outgo, as a percentage of its tax revenue, still remains fairly large.

Seth pushed for raising the country's tax-to-GDP ratio to about 20% in the next 5-6 years from the current 18%. The tax ratio was static at about 16.5% for a long time, he said.

The government, he said, has been rebalancing its expenditure profile in favour of capital expenditure in recent years. This has to continue, he said, adding the budget announcement of investing in people, investing in the economy and investing in innovation.


Seth, who along with finance minister Nirmala Sitharaman was in the US last week to attend the Spring meetings of the International Monetary Fund and the World Bank, said "there was a clear sense there that a rebalancing is needed". There were also deliberations there that multilateral institutions, including the World Bank, have to become more focussed. There were also discussions around achieving energy transition, with some countries focussing on realising this goal without jeopardising growth.

Panagariya: US Deal will be a Big Positive for India

NEW DELHI: India will come out stronger, and not weaker, from the current global uncertainties around tariffs, and a trade deal with the US will be "incredibly favourable" for the country vis-à-vis some of its competitors, noted economist and 16th Finance Commission chairman Arvind Panagariya said on Friday.





Panagariya said the US-China economic conflict, especially in trade, is here to stay, indicating gains for India. If Washington imposes higher trade curbs on Vietnam and Cambodia to prevent China from potentially using these countries to supply its goods to the US, India's trade prospects will brighten further, he indicated. - OUR BUREAU

**GRAVITA**  
AN INDIAN MULTINATIONAL COMPANY

**Recycling**  
For A Better Tomorrow

**GLOBAL FOOTPRINT**  
Network Spread Over 70+ Countries Across 6 Continents

**13 ECO CONSCIOUS**  
State-of-the-art Manufacturing Facilities

**RECYCLING DNA**  
32 Years | 5 Business Verticals

**REVENUE**  
+22%

**FY 24** 3,161 Cr.  
**FY 25** 3,869 Cr.

**EBITDA**  
+22%

**FY 24** 331 Cr.  
**FY 25** 404 Cr.

**PAT**  
+31%

**FY 24** 239 Cr.  
**FY 25** 312 Cr.

Statement of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2025 (Rs. in Crores)						
S.no	Particulars	Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.12.2024	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations (Net)	1,072.82	1,025.28	888.30	3,980.61	3,238.56
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items, Share of Loss of Associate)	114.57	89.11	72.22	363.46	274.15
3	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax (After Exceptional Items and/or Extraordinary Items)	114.57	89.11	72.22	363.46	274.15
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	94.92	78.06	69.42	312.90	242.28
5	Total Comprehensive Income for the period	82.51	93.64	65.15	296.25	230.85
6	Equity Share Capital (Face value per share Rs 2/-)	14.76	14.76	13.81	14.76	13.81
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)				2,055.15	823.59
8	Earnings Per Share (After Tax & minority interest) (of Rs 2/- each)					
	(a) Basic	13.04	11.35	9.92	45.11	34.88
	(b) Diluted	13.04	11.35	9.92	45.11	34.88

Key Numbers of Audited Standalone Financial Results (Rs. in Crores)						
1	Turnover (Net Sales)	860.29	819.04	720.86	3,222.77	2,679.07
2	Profit Before Tax	91.05	39.78	49.83	232.92	208.22
3	Profit After Tax	73.52	34.21	46.93	194.13	179.62

**NOTES:**


(A) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31st March 2025 results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarter and Year ended 31st March 2025 results are available on the website of the Stock Exchanges viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), and also available on the website of the company viz. <https://www.gravitaIndia.com/investors/financial-details>. The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

(B) The above results have been reviewed by the Audit Committee at the meeting held on 1st May, 2025 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 02nd May 2025

(C) Interim dividend of Rs.6.35 per share (on the face value of Rs.2 Per equity share) amounting to Rs.46.87 Crores, has been approved by the Board of Directors at their meeting held on May 02, 2025.

Place : Jaipur  
Date : 02<sup>nd</sup> May 2025

**Gravita India Limited**  
CIN: L29008RJ1992PLC006870  
Registered Office: Saurabh, Chittora Road, Harsulia Mod, Diggi Malpura Road, Tehsil - Phagi, Jaipur 303904 (Raj.)  
Telephone: +91-141-4057700 | Email: [companysecretary@gravitaIndia.com](mailto:companysecretary@gravitaIndia.com)  
Website: [www.gravitaIndia.com](http://www.gravitaIndia.com)



For Gravita India Limited  
Sd/-  
Yogesh Malhotra  
Whole-time Director & CEO  
DIN : 05732393

Scan to View Result

**The Institute of Chartered Accountants of India**  
(Set up by an Act of Parliament)



**AS DAY**

**Celebrates**

**Accounting Standards Day**

Theme  
**Navigating the Financial Reporting Landscape**  
Date: 3<sup>rd</sup> May 2025; 9.30 am onwards  
Venue: The Oberoi, New Delhi

**Chief Guest**

  
**Smt. Rekha Gupta**  
Hon'ble Chief Minister, Delhi

**ICAI Torchbearers**

**CA. Charanjot Singh Nanda**  
President, ICAI

**CA. Prasanna Kumar D**  
Vice-President, ICAI

**ASB Leadership**

**CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal**  
Chairman, Accounting Standards Board

**CA. Vishal Doshi**  
Vice-Chairman, Accounting Standards Board

**First Session**  
**Financial Reporting Excellence - A Preparer's Perspective**

Moderator	CA. Arvind Sethi
Panelist 1	CA. Badal Bagri
Panelist 2	CA. Mandeep Mehta
Panelist 3	Mr. Conrad D'Souza

**Second Session**  
**Reflections - A Decade of Indian Accounting Standards (IND AS)**

Moderator	CA. Aniket Talati, Past President, ICAI
Panelist 1	CA. Sudhir Soni
Panelist 2	CA. Prakash Bisht
Panelist 3	Ms. Suparna Banerjee Bhattacharyya

**Third Session**  
**Emerging Topics - Indian Accounting Standards and IFRS**

Moderator	CA. Vishal Doshi
Panelist 1	CA. Nipun Bansal
Panelist 2	CA. Vikas Kumar
Panelist 3	CA. Veni Thapar

The Accounting Standards Board is hosting a flagship event to propagate the relevance of Accounting Standards in ensuring consistency, transparency, and comparability in financial reporting and enabling stakeholders to take informed decisions. All stakeholders are invited to join this event where industry leaders, experts, and academicians will discuss key developments and challenges in financial reporting.

As guardians of financial discipline and transparency, ICAI plays a vital role in guiding India's transformative journey, educating, protecting, and empowering stakeholders with unwavering integrity.

Hosted by:

Regional Councils of ICAI  
(NIRC, WIRC, SIRC, EIRC, and CIRC)  
at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Jaipur

For Further details, Scan QR Code



Organised by:

**Accounting Standards Board (ASB) of ICAI**

Follow us on: 

Explore ...Engage ... Excel

For details visit : [www.icaai.org](http://www.icaai.org)